

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त 2015—भाद्र 3, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-न.पा.-674.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम मुरैना, जिला मुरैना के माह अगस्त 2015 में कराये गये आप निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर पालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/ पार्षद	वाड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	नगरपालिक निगम मुरेना जिला मुरेना	महापौर	--	--	अशोक अर्गल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती गीता देवी केशवसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्री राजेन्द्र राठौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रामस्वरूप जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती लाडन्ती देवी मुरारीलाल कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती सुनीता-धीरज	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्री प्रमोद कुमार जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्री रतीराम कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्री रामहेत मौर्य	बहुजन समाज पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्री सन्तोष दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	श्री आशाराम राठौर (बाबूजी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती मीरा पान सिंह बघेल	बहुजन समाज पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्री संजय शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुनीता राघवेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती राजश्री अजय राठौर उर्फ कम्पोटर	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री गौरव यादव (सन्नी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	श्री अनिल गोयल अल्ली	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती मधु भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	श्री अजय यादव (अल्लो)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्री सोनेराम सिंह	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	श्री गब्बर	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	श्री रामसेवक डण्डौतिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती सुनीता मनोज शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	डौली राजू वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	जितेन्द्र सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	शकुन विद्यासागर पारा	बहुजन समाज पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	कु0 वर्षा	निर्दलीय
28		पार्षद	27	सत्ताईस	पूजा शर्मा संजीव शर्मा (संजू पचौरी)	निर्दलीय
29		पार्षद	28	अठाईस	किरणदेवी राजू कारखुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
30		पार्षद	29	उनतीस	बालकिशन सिंह इन्दौतिया	बहुजन समाज पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	महावीर माहौर	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इक्तीस	प्रेमवती अमृत लाल यादव	निर्दलीय
33		पार्षद	32	बत्तीस	किशन जादौन (किन्ना)	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तेत्तीस	मंडलेश्वर सिंह हर्षाना	निर्दलीय
35		पार्षद	34	चौतीस	मीना सिंह सिकरबार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36		पार्षद	35	पैंतीस	ऊषादेवी सुरेन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	नीतेश अर्जुन सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	रैंदल भारत सिंह भावई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39		पार्षद	38	अडतीस	सीमा अरविंद सिंह सिकरबार (गुडुआ)	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उनतालीस	खलग सिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
41		पार्षद	40	चालीस	भूपेन्द्र सिंह सिकरबार (मिन्दू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
42		पार्षद	41	इकतालीस	मुन्नी देवी सुरेश सिकरवार	बहुजन समाज पार्टी
43		पार्षद	42	बयालीस	उर्मिला गरसिंह सिकरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
44		पार्षद	43	तैंतालीस	आशा देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
45		पार्षद	44	चौवालीस	शान्ती देवी हाकिमसिंह	निर्दलीय
46		पार्षद	45	पैंतालीस	केशव सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	बदन सिंह यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48		पार्षद	47	सैंतालीस	सोमवती मित्तलाल	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-65-01/2015/तीन/नपा/675

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुशरण में, एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वाडे क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	नगरपालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ	अध्यक्ष	--	--	रूपल प्रमोद कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	नर्मदाबाई - सिद्धलाल पुष्पद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	महेश अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	नसीर अंसारी पिता इमामी अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	हर्षादेवी - पालीवाल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शाईरुता बी -अखलाक मैवाती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	मो0 रफीक - नियाजमोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति जयाबाई पति सुनील कुमार पाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	मनोज — जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अनिता — सतीश गिरजे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मुस्तनसिर — अकबर अली	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	आयशा बी पति इखलास अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	हनीफ भाई उर्फ अच्कू हाफीज जी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	तसलीम खॉ — बच्चूभाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	शबाना बी w/o असलम खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	दीपमाला ओम पुष्पद (राधिका)	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	(कृष्णा — मूलचन्द वर्मा)	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	मधु सूदन पुष्पद (भेरू)	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठठारह	देवीसिंह — अमरसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-65-01/2015/तीन/नपा/676

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुशरण में, एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद कोटर जिला सतना के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर-परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद कोटर जिला सतना	अध्यक्ष	--	--	श्रीमती शांती पति रामजी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती जानकी पति समरजीत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कैलाश कुमार पिता कंधर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अनूप तिवारी पिता अंगद प्रसाद तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती मुन्नी बाई पति कुन्जीलाल साकेत	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती प्रियंका पति शत्रुघन सिंह	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती करुणा सिंह पति रामायण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	राम चरण पिता समाली	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	सतीश कुमार पिता माण्डवीशरण	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	विनोद कुमार पिता रामायण	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	योगेन्द्र प्रताप सिंह पिता रामखेलावन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	पंकज पिता शिवनाथ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	मीना पति दुर्गा प्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	आशादेवी पति शंकरदास	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राजकुमारी पति कमलेश प्रसाद	बहुजन समाज पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सविता पति शैलेंद्र	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-65-01/2015/तीन/नपा/677

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुशरण में, एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद सुवासरा जिला मंदसौर के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद सुवासरा जिला मंदसौर	अध्यक्ष	--	--	मगनलाल पिता भगवान	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मुन्नीबाई पति बालुसिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कारीबाई पति विनोद सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	भगवतीलाल मोदी - चिमनलाल मोदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	ताहेर अली शब्बीर हुसेन बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	पुष्पाबाई पति राजेन्द्र कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	कंचनबाई पति तेजू बगाड़ा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	रामगोपाल पिता राधेश्याम	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सुनिल कुमार	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	राम प्यारी - मोहन लाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सीमा पति घनश्याम	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नन्दकिशोर गोविन्दराम धनोतिया	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	नजमा बी पति अब्दुल रज्जाक मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रमेश चन्द्र कुमावत	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	हंसपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गोपाली बाई मेहर पति शंकर लाल मेहर	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-65-01/2015/तीन/नपा/678

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन्. 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुशरण में, एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद चाकघाट जिला रीवा के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल " पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंको में	शब्दों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद चाकघाट जिला रीवा	अध्यक्ष	--	--	" मिनाक्षी अलखनारायन केशरवानी "	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	पूजा गुप्ता पति पंकज गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	जैवन निशा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	गीता सिंह बघेल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	उमाशंकर केशरवानी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शकुन्तला सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	ठाकुर प्रसाद नामदेव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सुषमा केशरवानी	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	अजय उर्फ विककी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	जग नायक कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	बृजेश कुमार दविवेदी एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	विजय कुमार गुप्ता (नेता)	बहुजन समाज पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	मधु कोल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पूजा मुकेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राहुल देवी तेज गोपाल	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पन्ना लाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( दीपक सक्सेना )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.